







July 28, 2025

JFL/NSE-BSE/2025-26/28

**BSE Limited** P.J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai – 400051

Scrip Code: 533155 Symbol: JUBLFOOD

Sub: - 30th Annual General Meeting of Jubilant FoodWorks Limited on Thursday, August 28, 2025 & Newspaper publication

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of Jubilant FoodWorks Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, August 28, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM').

The Notice of the 30th AGM of the Company and the Annual Report for the Financial year 2024-25 will be sent in due course only through electronic mode to all the Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent/Depository Participant. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company will also be sending a letter providing the weblink, including the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered with the Company/DP.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. July 28, 2025 in Mint (English) & Rashtriya Sahara (Hindi), intimating the Members of the Company regarding the 30th AGM.

Further, in the aforesaid published newspaper advertisements today, the Company has also informed the shareholders about a special window that has been opened for re-lodgement of transfer deeds of physical shares pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025.

The copies of above documents are also available on the website of the Company at www.jubilantfoodworks.com under Investor Relations section.

Kindly take the same on record.

Thanking you, For Jubilant FoodWorks Limited

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer Investor E-mail id: investor@iublfood.com Encl: A/a



# Narayanan—the accidental CEO—with a lasting legacy

The Nestlé crisis-era chief and Maggi comeback architect bows out after nearly four decades

suneera.t@htlive.com **NEW DELHI** 

uresh Narayanan's entry into the corporate world was serendipitous. Growing up in pre-liberalized India, he didn't consider a career in the packaged consumer goods industry. He wanted to be a bureaucrat, following in his father's footsteps.

But a chance encounter during his final year at the Delhi School of Economics led to his first corporate job.

This week, he'll end his four-decade corporate career when he steps down as the chairman and managing director of Nestlé India Ltd.

On 1 August, Amazon's Manish Tiwary will replace Narayanan, who has been with the Swiss packaged foods company for over 25 years, including a decade of leading its India operations.

But a look back at his career, in some sense, suggests he was being prepared for this role from the very beginning.


"People wanted me to do engineering or medicine. I studied economics instead with every intention of being a bureaucrat that was drilled in me-my father was in government, so was my grandfather," said Narayanan.

Hindustan Lever Ltd (HUL), a coveted employer at the time, was recruiting on campus-a rare event back then. Narayanan, who hadn't taken the CAT exam (mandatory for pursuing an MBA), was persuaded by a peer to apply, and to his surprise, he got the role. This prompted his move to Mumbai, with a monthly salary of ₹1.200-1.300.

Narayanan's career at HUL was entirely focused on the food division, a natural precursor to what was to come.

At HUL, his peers included Nitin Paranjpe (non-executive chairman of HUL) and Leena Nair (the current chief executive, Chanel), among others.

He worked on brands such as Dalda and animal feeds and later became part of the Brooke Bond Lipton team. He



From IAS dream to FMCG leader: Narayanan wanted to join civil services but was drawn into corporate life with a chance campus interview at Hindustan Lever. михт

**CALM COMMANDER** 

eventually headed sales for their tea and coffee business before a brief stint at Colgate. While he respected Colgate's culture and values, the toothpaste and shampoo categories didn't appeal to him after years of being a "foods guy".

Narayanan joined Nestlé in 1999 as executive vice president for sales in India, a rare external hire into the comincluding international assignments in Nestlé Indochina, where he led sales, marketing, and food services across Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, and Vietnam.

He also served as managing director of Nestlé Singapore Pte. Ltd, followed by chairman roles for Nestlé North Africa and Nestlé Philippines. He was chairman and CEO of Nestlé Philippi-

**SURESH** Narayanan started his journey at Nestlé as executive for India in 1999

**HE** went on to hold senior roles across the Philippines, Indochina, North Africa and Singapore

**HE** led Nestlé India through the Maggi crisis in 2015, leading a massive recall to rebuild trust

regained mkt share; Nestlé put out 150+ products to reduce reliance on noodles

**UNDER** him, Maggi

pany's core management committee at the time. "What struck me about Nestlé was that it was a company with a huge premium on quality and safety and very strong brands," he told Mint in an interview earlier this month at the company's Gurugram office.

What followed were over 25 years of service at the Swiss foods company, nes prior to joining Nestlé India as managing director.

Narayanan returned to India and joined as managing director in August 2015, in the midst of the Maggi noodle crisis. This period, he said, was an "existential crisis" but also a defining one.

Nestlé India's instant noodles brand got embroiled in controversy following

allegations of high levels of lead and monosodium glutamate (MSG) exceeding permissible limits. The issue first emerged in March 2014 when a food inspector in Uttar Pradesh found MSG despite the "no added MSG" label. This led to the Delhi government imposing a 15-day ban, followed by a nationwide recall order on 5 June 2015.

Nestlé India recalled and destroyed approximately 38,000 tonnes of Maggi noodles, plummeting its market share from over 80% to zero in one month.

Maggi noodles eventually returned to the market in November 2015 and have since regained market share, now hovering over 60%.

In 2015, the company's net sales decreased by 17.2% to ₹8,123.27 crore, largely due to the crisis, with a profit after tax (PAT) of ₹563.27 crore.

However, the crisis did push the otherwise media-shy company to open up more to investors, shareholders, and the public at large.

"It was groundswell not only from global, but from the local market as well. Nestlé has always been a reticent, low-profile company. There is less known about it than should be known. Post the crisis, we became more open I became a kind of regular fixture on media calendars. We shared a lot more. We have come out of the crisis stronger," he said.

Nestlé also stepped up its innovation efforts to shake off the company's dependence on the Maggi brand. "In 2015, many considered us to be solely a Maggi noodles company. Since then, we have diversified our portfolio, expanding categories such as breakfast

cereals, premium coffee, and pet food with over 150 new products that have contributed to 7% of sales," he said in the firm's annual report for 2024-25.

For instance, the company's pace of innovation is now 4X faster than it was a decade ago. "We have become less failure-averse as a company," he added.

For an extended version of the story go to livemint.com

State/UT

### stake deals to boost its margin play

feedback@livemint.com

tate-owned Canara Bank plans to sell its excess priority sector loans in the ongoing quarter to compensate for the stress on margins due to moderation in interest rates.

During the quarter ended June, the bank earned ₹1,248 crore as commission by selling priority sector loans. Despite sale in the first quarter, total priority debt stands at 45.63% as against regulatory requirement of 40% of the total loan, Canara Bank MD and CEO K Satyanarayana Raju told PTI.

"We have a cushion under priority sector space. There is demand in the market and we may take advantage of the Priority Sector Lending Certificate sale during the current quarter itself," he said. Asked about impact of moderation in interest rates, Raju said, main concern for the ongoing financial year would be net interest margin and guidance of 2.75 % seems difficult at the current juncture due to 100 bps rate cut by RBI this year and expectation of another one as inflation has come down below 3%.

Whether rate cut happens in August-October, one must wait and watch, he said, adding, therefore pressure would be there in the current quarter as well and slight improvement can be witnessed in the third and fourth quarters.

Besides, he said, stake sale in two subsidiaries will provide some comfort during the year. The bank aims to list one of its subsidiaries in this quarter and another in Q3, depending on regulatory approvals, he said.

It's preparing to list Canara Robeco AMC and plans to offload its 13% stake via IPO.

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for a aggregate amount of ₹ 30,000/- crore (Face Value).

Additional

# Canara bets Raanjhanaa's AI on loan sale, reboot reignites copyright debate

lata.j@htlive.com **NEW DELHI** 

he rise of artificial intelligence (AI) is reshaping the movie business, enabling filmmakers to redesign the plots and twists in old hits, transcending human imagination, but also raising uncomfortable questions around the artistic integrity and potentially fuelling legal battles.

Take for instance the well-

loved 2013 film Raanihanaa Film studio Eros International is preparing to re-release the Dhanush and Sonam Kapoorstarrer movie in the Tamil Nadu market with a climax different from the original, powered by AI edits. Aanand L. Rai, who directed and co-produced it under his banner Color Yellow Productions, claims he wasn't consulted by the studio to re-introduce the film with these edits. The studio says it's the exclusive copyright holder and producer, and is fully entitled, legally and ethically, to adapt and re-release the film.

Experts say this highlights how directors, often treated as the captain of the ship, may or may not be able to stop such reinterpretations, depending on contractual rights.

So far, re-releases of films are mostly with re-mastering or restoration efforts like better audio-visual quality or the inclusion of deleted scenes, while retaining the creative integrity of the original work Going head, re-releases may become more common as AI technology advances and studios look to re-engage audien-



Eros plans an Al-powered re-release of the film, but director raises objections

ces with familiar titles. This will require industry norms to evolve, balancing the rights of creators and producers. Still, the loss of human touch and artistic integrity remains a major risk of using AI in films.

"A movie requires all parties including the producers, writers, actors, music and financiers to enter multiple contractual agreements to define roles and responsibilities, and profit distribution details. One has to review and analyse from the contracts signed between such parties to understand if the 'author' of the movie is separate from the 'producer' of the movie - this is essential to identify the first owner of the copyright in a cinematograph as per the Indian Copyright Act, 1957," Minal Madan, founder, SLP Law, said. Further, Section 57 of the Copyright Act, 1957 provides moral rights to a film director, which can be waived under contractual provisions, Madan added.

For an extended version of the story go to livemint.com

### **DoT issues** ₹7,800-cr **AGR dues** notice to **Tata Comm**

feedback@livemint.com

he Department of Telecom has issued a "show cause-cum-demand notice" of about Rs 7,800 crore to Tata Communications over adjusted gross revenue dues, according to an official note by the company.

The demand was raised by the Department of Telecom (DoT) for adjusted gross revenue (AGR) from 2005-06 till 2023-24, as per a July 17note.

"As on June 30, 2025, the company has received 'Show Cause-cum Demand Notices' (demand notices) from DoT aggregating to ₹7,827.55 crore for 2005-06 to 2023-24 that was revised over a period of time," said Tata Communications managing director AS Lakshminarayan.

He said the demand notices include Rs 276.68 crore towards disallowance of deductions claimed by the company on payment basis for the financial year (FY) 2010-11 under ISP (internet service provider) licence and FY07 and FY10 under NLD (national long distance) licence.

Tata Communications has existing appeals relating to its International Long Distance, NLD and ISP licences, which were filed in the past, and are pending at the Supreme Court and telecom tribunal TDSAT.

He said the firm's appeals are not covered by SC judgment dated October 24, 2019 on AGR under the old telecom licence regime called UASL.

According to initial calculation by the government, telecom operators had liability to pay around ₹1.65 trillion in total AGR dues till FY19.


### CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD. 29, IIE, Sahastradhara Road (IT Park), Dehradun Web site: www.siidcul.com | GSTIN:05AAHCS7324R2ZQ **E-Tender Notice** SIIDCUL invites online bids from interested bidders in two bid systems i.e. technical

and financial bids for allotment of Land for Residential Project at Bigwara, Kichha Udham Singh Nagar, Uttarakhand, as per details described in the bid document. The bidders must furnish completeinformation as per the procedure laid down in the bid document. Detailed bid document can be downloaded from www.siidcul.com & www.uktenders.gov.in between 27.07.2025 to 26.08.2025. Further any corrigendum regarding the bid shall be published on <a href="www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> and/or department website only. Interested bidders can however submit the complete bid document on e-tender website https://uktenders.gov.in only on or before the due dates a mentioned in the bid documents.

Plot description	Plot Area	NIT No.
Allotment of Land for Residential Project at Big-	78,835.56	208/SIIDCUL/ 2025
wara, Kiccha, Udhamsingh Nagar, Uttarakhand.	Sqm	
		Managing Director

Managing Director

## mint | ...Markets Insights to action Access the A to Z of Markets In-depth Articles Market Dashboard Analyst's Recommendations ₹1456.35 10.69% Strong BUY



The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on **July 29**, **2025** (**Tuesday**). Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (**https://rbiertaildirect.org.in**). For further details please refer to RBI press release dated **July 25**, **2025** (**Friday**) on RBI website **www.rbi.org.in** 

'Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

### JUBILANT FOODWORKS LIMITED

BIIANT
ONWORKS

CIN: L74899UP1995PLC043677

Regd. Office: Plot No. 1A, Sector -16A, Noida - 201301, Uttar Pradesh
Corporate Office: 15th Floor, Tower-E, Skymark One, Plot No. H-10/A, Sector - 98, Noida - 201301, Uttar Pradesh Tel: +91-120-6927500; +91-120-6935400

Website: www.jubilantfoodworks.com, E-mail: investor@jublfood.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

OTICE is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ('AGM' of the Members of Jubilant FoodWorks Limited ('Company') will be held or Thursday, August 28, 2025 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing, Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, 2015 and irculars issued thereunder, to transact the business(es) as set out in the Notic onvening the 30th AGM ('AGM Notice'). Members attending the AGM throug

Electronic dissemination of AGM Notice & Annual Report: AGM Notice along with the Integrated Annual Report for FY 2024-25 ('Annual Report') will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company will also be sending a letter providing the weblink, including the exact path of Annual Report to those shareholder whose email address is not registered with the Company/DP. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at <a href="https://www.jubilantfoodworks.com">https://www.jubilantfoodworks.com</a>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited a www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com **E-Voting:** Members will be provided with the facility to cast their vote electronically through the remote e-Voting facility (before the AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in the AGM Notice. The detailed procedure for remote e-Voting and e-Voting facility will be provided in the AGM Notice. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM. Members holding shares in physical form or Members whose email ID is not registered, may refe to the detailed procedure outlined in the AGM Notice for registration of email ID procuring User ID and Password for attendance and e-Voting at the AGM.

Dividend and Record Date: The Board of Directors of the Company in its meetin held on May 14, 2025 recommended dividend of INR 1.20/- (i.e. 60%) per equit share of face value of INR 2/- each for FY 2024-25, subject to approval of Member. in the AGM. The dividend, upon approval by the Members, will be paid/dispatched to Members holding equity shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e. July 18, 2025 for determining eligibility of Members to receive the dividend. Members are requested to undate their Bank details as per instructions provided in the AGM Notice to receive electroni credit of their dividend entitlement.

Tax on Dividend: In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, ('IT Act') dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company equired to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribe ate under the IT Act. The deduction of tax at source will be based on the residentia status, category of Members and subject to fulfilment of conditions as provided under the IT Act. The Members are therefore, requested to upload requisite tax related documents/declarations on the link https://web.in.mpms.mufg.com formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before July 31, 2025 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rate applicable Members who wish to register/update their email IDs & Bank Account mandate

may follow the below instructions Members holding equity shares of the Company in demat form are requested to approach their respective DP and follow the process advised by DP.

Members holding equity shares of the Company in physical form may subm the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company' /www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-inv

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSCIA SHARES

n accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025

97 dated July 2, 2025, all shareholders are hereby informed that a special window has been opened for re-lodgement of transfer deeds as detailed below: From: July 7, 2025 | To: January 6, 2026 Tenure for re-lodgement Who can re-lodge the transfer requests?

odgement of transfer

Shareholders whose transfer deeds were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise Shareholders are required to submit original transfe documents, along with corrected or missing

information to Company's RTA, MUFG Intime India Pvt. Ltd (Formerly Link Intime India Pvt. Ltd.) Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi

+91 11 49411000 Helpline No. Raise a service request at https://

web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/ service Request.html, or send ar email at investor@jublfood.com or

delhi@in.<u>mpms.mufg.com</u>

The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized

For Jubilant FoodWorks Limited (Mona Aggarwal)

Date: 25.07.2025



नई दिल्ली। सोमवार ● 28 जुलाई ● 2025

राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध-सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के ऐतिहासिक किलों का उल्लेख करना प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है।

भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

स्नहाँरा= | www.rashtriyasahara.com

वान्या को मिला 'यंगेस्ट योगिनी

ऑफ इंडिया' का खिताब

नई दिल्ली (एसएनबी) । नन्हीं योग प्रेरणा वान्या शर्मा जिसने मात्र ७ वर्ष ६ माह

की आयु में असाधारण साधना और संतुलन से सबका मन मोह लिया, बल्कि उन्होंने

इंटरनेशनल डैजलिंग अवार्ड्स 2025 के मंच पर इतिहास रच दिया। समारोह के

दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री और योग आइकन शिल्पा शेट्टी के हाथों से उन्हें यंगेस्ट

योगिनी ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जैसे

ही वान्या का नाम पुकारा गया पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। शिल्पा शेट्टी ने उन्हें

प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न भेंट किया। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वान्या जैसे बच्चों

को देखकर विश्वास होता है कि भारत की योग परंपरा सुरक्षित हाथों में है। इस

छोटी सी उम्र में जो संतुलन, समर्पण और अनुशासन वान्या ने दिखाया है, वह हम

सभी के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम के दौरान वान्या ने एक अत्यंत सुंदर योग

प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया, जिसमें उनके लचीलेपन, संतुलन और आत्मविश्वास ने

सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तालियों से

उनका अभिनंदन किया। वान्या शर्म एसडी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा की छात्रा हैं

और अपनी असाधारण प्रदर्शन से वह स्कूल व देश का नाम रोशन कर रही हैं।

समारोह में देश-विदेश से आए योग प्रेमियों, गण्यमान्य अतिथियों और मीडिया

प्रतिनिधियों ने वान्या की प्रशंसा कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

### तंबाकू की तरह शराब पर भी लगे चेतावनी लेबल

नई दिल्ली।

एम्स के अनुसंधानकर्ताओं ने तंबाकू संबंधी चेतावनियों के मामले में भारत की सफलता के आधार पर टाले जा सकने वाले कैंसरों की रोकथाम के लिए शराब उत्पादों पर साक्ष्य-आधारित व पुख्ता चेतावनी लेबल लगाने का आह्वान किया है।

कैंसरकारी तत्व

एम्स के शोधकर्ताओं : फ्रांटियर्स इन पब्लिक ने की अपील हेल्थ में 24 जुलाई को प्रकाशित भारत में कैंसर

की चेतावनी वाले लेबल के माध्यम से व्यवहार से संबंधित हस्तक्षेपों का विस्तार : सिगरेट के पैकेट से शराब की बोतलों तक शीर्षक से एक लेख में चिकित्सकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तंबाकू की तरह शराब भी कैंसरकारी तत्व है, फिर भी इसके बारे में जागरूकता कम है। एम्स स्थित डा. बीआर आंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन आन्कोलॉजी विभाग के कैंसर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदेश भाजपा की

ओर से रविवार को सभी 14 संगठनात्मक जिलों में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का

आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय

नेतृत्व, सांसद विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों ने

स्थानीय लोगों के साथ सुना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय

महामंत्री विनोद तावड़े, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र

सचदेवा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की उपस्थिति में पूर्व

रिटायर्ड भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ मन की

बात सुनी। स्थानीय विधायक नीरज बसोया के संयोजन में

दिल्ली में पहली बार बड़ी संख्या में पूर्व भारतीय सेना

अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस मौके पर

जिलाध्यक्ष रवींद्र चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह

संयोजक संजय मयूख, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण

शंकर कप्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी एवं शहजाद

पूनावाला, प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी, मन की बात कार्यक्रम

विशेषज्ञ डा. अभिषेक शंकर, डा. वैभव साहनी और डा. दीपक सैनी के लेख में कहा गया है कि किशोरावस्था शराब समेत मादक पदार्थीं के सेवन संबंधी व्यवहार की शुरुआत और तीव्रता के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है।

कैंसर मामलों में वृद्धि: भारत में कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है, 2012 से 2022 की अवधि के आंकड़ों से घटनाओं में 36 फीसद की वृद्धि (10.1 लाख

से 13.8 लाख) का संकेत मिलता है। ग्लोबोकैन (जीएलओबीओसीएएन) 2022 के आंकड़ों के

अनुसार, भारत में करीब 14.1 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए, जबकि 5 वर्षी में करीब 32.5 लाख मामले सामने आए और कैंसर से कुल 9,16,827 लोगों की मौत हुई। ग्लोबोकैन 2020 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति एक लाख लोगों पर शराब के सेवन से कैंसर होने की दर और आयु-मानकीकृत दर क्रमशः 4.7 फीसद और 4.8 फीसद है।

## भारत की वैदिक परंपरा का प्रतीक हैं डीएवी व हंसराज कॉलेज : शेखावत

🔳 सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

भारत की वैदिक परंपरा की सतत साधना और शेखावत ने ये विचार व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि भारत के वास्तविक इतिहास के गौरवपूर्ण पृष्ठों से लोगों को अनिभज्ञ

रखा गया। साजिश के तहत हमें हमारी जड़ों से, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारी उन्नत संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का गंभीर प्रयास नहीं हुआ। अकादिमक क्षेत्र के लोगों का इस दिशा में बड़ा दायित्व है और उन्हें भारत के

हंसराज कॉलेज का स्थापना दिवस



उद्भव के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि शिक्षा संस्थाओं में देश प्रेम की कमी है और इन संस्थाओं में इसकी

चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि महापरुषों को स्मरण करते हुआ कहा कि इनके प्रति इस राष्ट्र के एक-एक नागरिक को कृतज्ञ होना चाहिए। हंसराज कॉलेज जैसी पुण्य स्थली से ही इस दिशा में गंभीर पहल होनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि संवाद और स्वाध्याय आज की सबसे

उन्होंने पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। इससे पहले कॉलेज की प्राचार्य प्रो. रमा ने हंसराज कॉलेज की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की वैदिक परंपरा में गहरी आस्था रखने वाला हंसराज कॉलेज भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत संकल्प से जुडकर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मंच संचालन सुश्री माधवी मोनी एवं कार्यक्रम

संस्थान : आईपीयू

नई दिल्ली (एसएनबी)। आईपी यूनिवर्सिटी ने इस

माह के शुरू में आयोजित दाखिला नियामक समिति द्वारा

दिए गए निर्देशों के आलोक में संबद्ध संस्थानों को

प्रबंधन कोटे से दिए जाने वाले दाखिले में पुरी पारदर्शिता

बरतने को कहा है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि संबद्ध

संस्थान इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इच्छुक

योग्य उम्मीदवार इस कोटे में आवेदन करने से वंचित न

रह जाए। इसके लिए संबद्ध संस्थान अपनी वेबसाइट

के होम पेज पर इस सूचना को प्रमुखता से जगह दें।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने वालों की

सूची भी उस पर डाले। यदि उनके आवेदन में कोई त्रुटि

है तो उसके निवारण का मौका दें। इस कोटे में आवेदन

के लिए निर्धारित समयावधि में संबद्ध संस्थान

ऑनलाइन दाखिले का पोर्टल चौबीस घंटे खोलकर

रखें। यह भी ध्यान रखें कि आवेदकों को ऑफलाइन

#### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

घारा 82 Cr.P.C. / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता—2023 देखिए मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान, पुत्रः मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान, निवासीः मकान संख्या ई-16 / बी-100, झुग्गी न्यू सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली। में FIR No.: 460/2023, U/s: 379 IPC, पुलिस थाना दरिया गंज, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गय है कि उक्त मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि पुलिस थाना दरिया गंज, दिल्ली के अभियुक्त मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 16.09.2025 या इससे पहले हाजिर हो।

> डॉ. राज कुमार सिंह जेएमएफसी-05,(केंद्रीय जिला), कमरा नं. - 241 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/9882/CD/2025

एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सचना।

#### परिशिष्ट IV-A अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढ़ते हा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किय जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस प सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडिया<mark>बुल्स हाउसिंग फायना</mark>न** लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] (''सुरक्षित लेनदा द्वारा'') द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, 14.08.2025 को शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे तक ''जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'', की वसूली के लिए ऋण खाता नं HHLBHD00521495 के लिए रू. 27,76,751/- (रुपए सत्ताईस लाख छिहत्तर हजार सात सं इक्यावन मात्र) के लिए 21.07.2025 तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय औ अन्य खर्चों के साथ 22.07.2025 से प्रभावी जो <mark>सुप्रतिम चंद्रा, काकली चंद्रा और सुशोवन चंद्रा</mark> प

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रु. 16,09,000/- (रुपए सोलह लाख नौ हजार मात्र होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ("ईएमडी") रू. 1.60,900/- (रूपए एक लाख साठ हजार नौ सं **मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा ।

पूरी तीसरी मंजिल के सभी भाग और खंड, छत/टेरेस के अधिकारों के साथ, निर्मित प्रॉपर्टी बेअरिं लॉट नंबर 31 (बी-31) के सामने की तरफ है, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज यानी 58.53 वर्ग मीट राजापुरी कहा जाता है, नई दिल्ली–110059, नीचे की भूमि, सार्वजनिक सीढ़ी, प्रवेश और पैसेज के आनुपातिक अधिकारों के साथ, जिसमें उक्त संपत्ति के तल मंजिल पर सार्वजनिक हैचबैक कार पार्किंग जगह के साथ भवन के सभी सार्वजनिक अधिकारों के साथ संबंधित अधिकार शामिल हैं ;

: दूसरे का प्लॉट नंबर 30-ए

पश्चिम : दूसरे का प्लॉट नंबर 31-ए

बिक्री के विस्तृत नियमों और शतौं के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaancapital.com देखें : संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024 ww.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें। सही/

दिनांक : 22.07.2025

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के

### CUB

#### सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24—बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम - 612 001. ई—मेल आईडी : crmd@cityunionbank.in, फोन : 0435-2432322, फैक्स : 0435-2431746

सरफासी ऐक्ट के तहत पुनर्—निविदा—सह—नीलामी बिक्री सूचना सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में बंधक निम्नलिखित सम्पत्ति/यां कर्जदारों/गारंटरों क्रमांक 1) श्री चम कुमार पुत्र स्व. श्री हरीश चंदर नंबर 51/80, मेन मार्किट, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली–110044, क्रमांक 2) श्रीमती राजवती पत्नी श्री चमन कुमार नंबर 51/80, मेन मार्किट, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली-110044, क्रमांक 3) श्री रजत रेक्सवाल पुत्र श्री चमन कुमार नंबर 51/80, मेन मार्किट, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली—110044 से बैंक की 16—06—2025 तक बकाया राशि रू. 22,81,749/ (रूपए बाईस लाख इक्यासी हजार सात सौ उन्चास मात्र) दिनांक 17-06-2025 से याज तथा अन्य खर्चों, बैंक के किसी अन्य बकाया की वसूली के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के तहर पुनर्-निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएंगी।

हमारे बैंक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति

(श्री चमन कुमार पुत्र स्व. श्री हरीश चंदर द्वारा स्वाधिकृत) , नई दिल्ली में विस्तारित लाल डोरा आबादी के भीतर खसरा नंबर 42/27 में रिथत सम्पत्ति र 28—बी, परिमाप 150 वर्ग गज अर्थात 125.42 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल छत के अधिकार के साथ शामिल है। चौहद्दी निम्नानुसार : **पूरब** – श्री महेश का मकान नंबर 29—बी, **पश्चिम** – श्री सोनू का मकान नंबर 27—बी, **उत्तर** – गली, **दक्षिण** – श्री महेश का मकान नंबर 28—बी,

#### सुरिक्षत मूल्य : रू .22,00,000/-(रूपए बाईस लाख मात्र) पुनर्–नीलामी का विवरण

पुनर्-निविदा-सह-नीलामी बिक्री की तिथि

19-08-2025

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड लाजपत नगर शाखा, एम-17, मू तल, लाजपत नगर 11, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली फोन नंबर : 011-29840034, सेल नंबर : 9310085382

पुनर्-निविदा-सह-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते ) इच्छक बोलीदाताओं को नीलामी के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए तथा भाग ले ाहिए और एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह स्वयं अपनी ओर से बोली लगा रहा है। (2) इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रपत्र प्रबंधक, सिटी यूनियून बँक लिमिटेड, नई दिल्ली लाजपत नग शाखा, एम–17, मू तल, लाजपत नगर–11, साउँथ दिल्ली, नई दिल्ली–110024 से प्राप्त कर सकते हैं। (3) इच्छुक बालीदाताओं को अपनी बोलियां केवल निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी, सिटी यू<mark>नियन बैंक लिमिटेड</mark> को संबोधित एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत की ईएमडी हेर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड' के पक्ष में आहरित पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के साथ एतदृद्वारा अधिसूचित निविदा—सह-नीलामी की तिथि को अथवा **पूर्व मध्या. 12.00 बजे** तक प्रस्तुत करनी चाहिए। (4) इंच्छुक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण तथा अन्य विवरण के लिए **फोन नंबर 011—29840034, सेल नंबर 9310085382** पर सम्पर्क कर सकते हैं। **(5)** सम्पत्तियां 'जैसी है जहां है', 'जो है जैसी है', तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर बेची जाएंगी। (6) सीलबंद निविदाएएतदृहारा अधिसूचित निविदा—सह—नीलामी की तिथि को अप. 01.00 बजे इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। यद्यपि साधारणतः विक्री बंद विदाओं द्वारा होगी, तथापि, प्राधिकृत अधिकारी, एकमात्र अपने विवेकानुसार, बंद निविदा प्रक्रिया में प्राप्त नेविदा के ज्यादा ऊंची बोली लगाने के इच्छुक बोलीदाताओं के मध्य खुली नीलामी संचालित कर सक ं और ऐसी स्थिति में बिक्री सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को की जाएगी। तथापि, बिक्री सिट यूनियन बैंक लिमिटेड द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (7) सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि (मुगतान की जा चुकी ईएमडी सहित) बिक्री पूर्ण होने पर तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर पहले जमा की गई **25 प्रतिशत** राशि जब्द कर ली जाएगी। (8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र, बिक्री की पूरी राशि निर्धारित अवधि के मीतर प्राप्त होने के पश्चात, जारी किया जाएगा। (9) सफल क्रेता को हस्तांतरण के लिए देय प्रमार*्र* शुक्क, जैसेकि स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुक्क इत्यादि, कानून के तहत लागू अनुसार, वहन करने होंगे। (10) सफल बोलीदाता व कानूनी बकाया राशियों (कानूनी हाउस टैक्स, बिजली प्रभार और अन्य बकाया), टीडीएस, जीएसर्ट कोई, का भुगतान करना चाहिए, जो सरकार, सरकारी उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को देय है (11) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिब्र थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान : कुम्बकोणम्, तिथि : 24–07–2025 पंजी. कार्यालय: 149, टी.एस.आर. (बिग) स्ट्रीट, कुम्बकोणम, तंजावुर जिला, तमिलनाडु - 612 001, सीआईएन - L65110TN1904PLC001287 फोन नंबर 0435 — 2402322, फैक्स : 0435 — 2431746, वेबसाइट : www.cityuni

गरिमा के प्रतीक हंसराज कॉलेज और डीएवी का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इस देश को आजादी के बाद से आगे बढ़ाने में सरकारों के साथ ही संस्थाओं एवं संस्थानों की भी बड़ी भृमिका रही है और हंसराज कॉलेज उनमें अग्रणी रहा है। हंसराज कॉलेज की उपलब्धियां और 78 वर्षों की यात्रा गर्व करने योग्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हंसराज कॉलेज के पंडित मदन मोहन मालवीय सभागार में कॉलेज के 78वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह

समारोह संपन्न

समन्वयक डॉ. प्रभांशु ओझा ने किया। प्रतिष्ठा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सावरकर, प्रबंधन कोटे से दाखिले में प्रदेश भाजपा दफ्तर में नड्डा ने सुनी पीएम के मन की बात पूरी पारदर्शिता बरतें संबद्ध

व स्थानीय लोगों के साथ और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने गोविंदपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बादली विधानसभा क्षेत्र में सांसद एवं प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया एवं स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। सांसद बांसुरी स्वराज ने मन की बात कार्यक्रम के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात एक आशावादी

आत्मविश्वास की लौ को दोबारा जगाता है। सांसद एवं प्रदेश महामंत्री कमलजीत सहरावत ने कुंवर सिंह वार्ड में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। दिल्ली सरकार के मंत्री डां. पंकज सिंह भी उपस्थित थे। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आनंद निकेतन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयास करते हैं कि वह मन की बात कार्यक्रम से देश भर की अच्छी व सकारात्मक पहलुओं व घटनाओं को जन जन तक पहुंचाए इसलिए उनका कार्यक्रम

अब एक जन आंदोलन बन चुका है।

आवेदन जमा कराने में किसी तरह का व्यवधान न हो। जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड सीआईएनः L74899UP1995PLC043677

> प्लॉट संख्या १ए, सेक्टर—16ए, नोएडा — 201301, उत्तर प्रदेश 15वीं मंजिल, टावर-ई, स्काईमार्क वन, प्लॉट संख्या एच-10/ए. सेक्टर-98, नोएडा - 201301, उत्तर प्रदेश फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400

वेबसाइटः <u>www.jubilantfoodworks.com</u>, ईमेलः <u>investor@jublfood.com</u> वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक आम

बैठक की सूचना, रिकॉर्ड तिथि और लाभांश जानकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्य एतहायार्थ होरा सूच्या क्या जाता है कि जुनसार मुख्यस्त क्यान्य (जना) न सर्वात की तीसवीं (30वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मुख्यस्त, 28 अगस्त, 2025 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगध्अन्य ऑडियो विज्जुअल माध्यमां ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपन्नों के अनुपालन में, 30वीं एजीएम ('एजीएम गोटिस') बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यो) को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 वे प्रंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारः वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के गच्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी') के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट सटीक पथ सहित वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भी भेजेगी, जिनका ईमेल पता कंपनी / डीपी के गस पंजीकृत नहीं है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.jubilantfoodworks.co</u>n स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक

क्सचेंज लिमिटेड की <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होंगे। ई—वोटिंगः सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्घारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविघा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविघा के लिए विस्तृत प्रक्रिया रजीएम नोटिस में प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-वोटिंग व गध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते लेकिन एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे ईमेल आईडी के पंजीकरण, उपस्थिति के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और एजीएम में ई—वोटिंग के लिए एजीएम नोटिस में उल्लिखित वेस्तृत प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं।

नामांश और रिकॉर्ड तिथिः कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इकिटी शेयर पर 1.20 रुपये (अर्थात 60%) का लागांश देने की सिफारिश की, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। सदस्यों के अनुमोदन के बाद, लामांश का मुगतान/प्रेषण कंपनी के इक्विटी शेयरधारव सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि, अर्थात 18 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में किया जाएग ताकि लाभांश प्राप्त करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जा सके। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी लामांश पात्रता का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सूचना विए गए निर्देशों के अनुसार अपने बैंक विवरण अपडेट करें।

लाभांश पर कर: आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, नाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य होती है और कंपनी को सदस्यों को भुगतान किए गए नामांश से आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित दर पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है। ब्रोत पर कर की कटौती सदस्यों की आवासीय स्थिति, श्रेणी और आईटी अधिनियम के तहत प्रदत्त शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले <u>https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html</u> लिंक पर आवश्यव कर संबंधी दस्तावेजध्योषणाएँ अपलोड करें ताकि कंपनी लागु उचित विदहोत्डिंग कर दर निर्धारित कर

जो सदस्य अपनी ईमेल आईडी और बैंक खाता अधिदेश पंजीकत /अपडेट करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं: कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी

से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें। कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए, एमयुएफजी इंटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास निर्धारित फॉर्म

आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण जमा कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-investor-forms से निर्घारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, सभी शेयरबारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

स्थानांतरण अनुरोध पुनः 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 **गैन दर्ज करा सकता है?** ऐसे शेयरघारक जिनके हस्तांतरण विलेख 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दर्ज किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

दिनांकः 25.07.2025

थानः नोएडा

स्थानांतरण अनुरोधों को पुन शेयरघारकों को मूल हस्तांतरण दस्तावेज, सही या अनुपलब्ध जानकारी के साथ कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को प्रस्तुत

डाक का पता नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2, एलएससी, सी–1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 हेल्पलाइन नं. +91 11 49411000 https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk service Request.html पर सेवा अनुरोध दर्ज करें, investor@jublfood.com

हस्तांतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड के लिए हस्ता/ (मोना अग्रवाल

delhi@in.mpms.mufg.com पर ईमेल भेजें

कार्यक्रम है जो देश की युवा को प्रेरणा देने के साथ देश में

 सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा की उपस्थिति में पूर्वी दिल्ली के घड़ौली में मयूर विहार जिला के कार्यकर्ताओं एवं अध्यक्ष विजेन्द्र धामा के साथ प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को सुना। सांसद

मनोज तिवारी ने वजीराबाद गांव में विधायक सूर्य प्रकाश खत्री

फ्युल बैन पर जनता

दिल्ली सरकार: यादव **नई दिल्ली (एसएनबी)।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन लागू करने का कदम केवल एक पर्यावरणीय निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश है। इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिलीभगत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन आज जब रोजी-रोटी पर तलवार

लटकी है, तब प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं।

को गुमराह कर रही

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवन्द्र यादव ने कहा कि जब ग्रीन टिब्यनल का आदेश पहले ही सप्रीम कोर्ट से वैध ठहराया जा चुका है। ऐसे में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना समय बर्बाद करके लोगों को झुठी उम्मीदें देने जैसा है। वास्तव में राहत देनी है तो मोदी सरकार को खुद कोर्ट में हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना जनता को भ्रमित करने और दिखावटी राहत देने की चाल है। वास्तविक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन खुद मोदी सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और 'आप' मिलकर जनता पर फ्युल बैन थोप रहे हैं और इसका असली लाभ कार कंपनियों और वाहन डीलरों को मिल रहा है। एएनपीआर कैमरों को पेट्रोल पंपों पर लगाने का सुझाव खुद केजरीवाल सरकार ने दिया था।

### मेयर ने की मच्छर प्रजनन व मच्छररोधी प्रयासों की समीक्षा

लगभग छह लाख घरों में किया

कीटनाशक का छिडकाव

(एसएनबी)। मेयर राजा इकबाल सिंह ने मच्छरों के प्रजनन एवं मच्छररोधी प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली के अंतर्गत आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन विद्यालयों, अंतर विभागीय समन्वय बैठकों के माध्यम से

मच्छरों के प्रजनन को रोकने का प्रयास कर रहा है। निगम के जनस्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों का प्रजनन

पाए जाने पर लगभग छह लाख घरों में मच्छर नाशक दवा का छिडकाव/फॉगिंग की है. जो कि पिछले वर्ष किए गए छिडकाव/फॉगिंग से दुगने से भी

ज्यादा है। जनस्वास्थ्य विभाग ने घरों एवं भवनों में मच्छरों के प्रजनन की जांच कर इसे नष्ट किया है, जो कि पिछले वर्ष के

मुकाबले 60 प्रतिशत से अधिक है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस वर्ष डेंग् के मामले पिछले वर्ष के मुकाबले कम आए हैं। इस वर्ष 282 स्थानों पर जैविक नियंत्रण उपाय किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष 206 स्थानों पर किए गए थे। इस वर्ष अब तक डेंग के 277

मामले आए हैं, जो कि पिछले वर्ष इस समय आए 284

मेयर राजा इकबाल सिंह ने सभी से आग्रह किया है कि मच्छरजनित बीमारियों के बारे में नागरिकों को अधिक से अधिक जागरूक जनस्वास्थ्य विभाग ने

किया जाए एवं मच्छरों के प्रजनन को स्थल पर ही नष्ट किया जाए। निगम जनता से आग्रह करता है कि बारिश के

मौसम में अपने आस पड़ोस में जलजमाव न होने दें एवं निगम के डीबीसी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। उन्हें अपने घरों. भवनों एवं कार्यालयों की जांच करने दें। अभी हाल ही में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने पर एक फील्ड कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है।

### करोड़ों खर्च करने के बावजूद एमसीडी को नहीं आवारा कूतों की सटीक जानकारी

**त्र** तेजपाल शर्मा नई दिल्ली। एसएनबी

सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राजधानीवासी किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों लेकिन वे आवारा कुत्तों से भलीभांति परिचित हैं कि इनका शहर में कितना आतंक है। इनका आतंक इतना है कि बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले नगर निकायों के पास शहर के आवारा कुत्तों के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली नगर निगम के पास इन आवारा कुत्तों के बारे में किसी तरह की कोई

राजधानी में आवारा कुत्तों की वजह से बढ़ते हादसे और रेबीज से अन्य शहरों में हुई मौतों के बाद एमसीडी ने आवारा कुत्तों का सर्वे कराने की योजना तैयार की है। निगम के पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहली बार नगर निकाय पूरे शहर में आवारा कुत्तों का क्षेत्रवार सर्वे कराने की तैयारी कर रहा है। सर्वेक्षण को लेकर विभागीय कार्रवाई को तेज कर दिया है। एमसीडी के शीर्ष अधिकारियों से योजना की स्वीकृति मिलने पर इसे स्टैंडिंग कमेटी में लाकर सर्वे का टेंडर किया जाएगा।

हैरानी की बात तो यह है कि एमसीडी के गठन से लेकर अब तक महज एक बार विभाजित दिल्ली नगर निगम के दौरान 2016 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में कुत्तों का सर्वे कराया था। दक्षिणी निगम में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग एक लाख 89 हजार 285 थी। उस समय निगम में क्षेत्रवार कुत्तों की संख्या के मामले में नजफगढ़ जोन

एमसीडी गठन के पहली बार होगा राजधानी में आवारा कृतों का

 2016 में विभाजित निगम में अस्तित्व में रहे दक्षिणी निगम ने कराया था आवारा कृतों का सर्वे

में 29952 कुत्ते थे। सेंट्रल में 32216, साउथ में 59435 और वेस्ट जोन में सबसे अधिक 67 हजार 682 कुत्तों की संख्या थी। इसमें से 40.3 प्रतिशत नर और 27.8 प्रतिशत मादा आवारा कुत्ते शामिल थे। मौजूदा वक्त में नगर निकायों में कुत्तों की संख्या कई गुना की वृद्धि हो चुकी है। अब कृत्ते लोगों पर हमला करने लगे हैं। बीते दिनों तीन वर्षीय मासूम को अलीपुर क्षेत्र में कुत्तों ने हमला कर नोंच डाला था। किसी राहगीर ने इन आवारा कुत्तों से मासूम को छुड़ा लिया नहीं तो वे इसकी जान लेकर ही दम लेते।

आवारा कुत्तों की सही संख्या मालूम नहीं, फिर भी हर वर्ष होता है बंध्याकरण : आवारा कुत्तों के बंध्याकरण पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। एमसीडी हर वर्ष कुत्तों के बंध्याकरण पर करोड़ों रुपए खर्च रही है। इसके बावजूद उनके पास इनकी संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस नगर निकाय को कुत्तों की सटीक जानकारी नहीं है, वो करोड़ों रुपए इन कुत्तों के बंध्याकरण पर आखिर किस आधार पर खर्च किया जा रहा है, यह भी बड़ा प्रश्न है।

कुत्तों के काटने की घटनाओं में हो रहा इंजाफा : एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग कहते हैं कि कुत्तों के काटने की घटनाओं निरंतर इजाफा हो रही है। भाजपा नेताओं से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जिन्हें यह भी पता नहीं हो कि निदेशक पशु चिकित्सा सेवा का पद आठ माह से खाली पड़ा है। दिल्ली भगवान भरोसे चल रही है। भाजपा नेता और विभाग में तालमेल का अभाव है।